

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जनवरी 2010—पौष 16, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 38-01-2004-तीन.-188.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग की अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर, 2004 आदेश क्रमांक एफ-38-1-2004-तीन-1020 दिनांक 15 अक्टूबर 2004 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-476, दिनांक 15 अक्टूबर, 2004 को हुआ है, के निर्वाचन की सूची के भाग-पाँच में किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या की बहुलता की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतीकों में सरल क्रमांक 14 के पश्चात् अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीक बल्लेबाज, डबल रोटी, केक, गाजर, कोट, डोली, आइसक्रीम, शटल, टेन्ट तथा छड़ी को जोड़ा जाना है.

2. उक्त प्रतीक चिन्ह जोड़े जाने के पश्चात् प्रतीकों की सूची संलग्न सूची के भाग-पाँच में सरल क्रमांक 14 के बाद रहेंगे.

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भाग-पाँच-किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या की बहुलता की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतीक

क्रमांक	प्रतीक
15	बल्लेबाज
16	डबल रोटी
17	केक
18	गाजर
19	कोट
20	डोली
21	आइसक्रीम
22	शटल
23	टेन्ट
24	छड़ी

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

दूरभाष क्रमांक 0755-2555527